

एक कठोर नीतिका खंडन : सराहनीय कदम

संदर्भ

जब अमेरिकी अप्रवासन अधिकारियों ने मेक्सिको के साथ लगी अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी और उनके बच्चों को उठा ले गए, तो हफ्तों तक पूरी दुनिया भयभीत थी। इन बच्चों में एक 10 महीने का बच्चा भी था जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित था। इन शरण-स्थलों पर अधिकारियों को आदेश दिये गए थे कवि किसी भी बच्चे को न छुएँ न ही उन्हें कोई आरामदायक सुविधा देने की कोशिश करें। अवैध प्रवासियों के बच्चों को उनके माता-पिता से अलग किये जाने की घटना के बाद देश में ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना हुई, जिसके बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन इस नयिम में बड़े बदलाव करने के लिये तैयार है।

कौन हैं ये अवैध प्रवासी?

- सीमा पर रोके जाने वाले बहुत से लोग एल साल्वाडोर, हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला में उपद्रवियों की हिसा और छेड़छाड़ के कारण वहाँ से भाग रहे थे और शरण के लिये आवेदन कर रहे थे।
- हर साल ग्रीष्मकाल के दौरान हज़ारों स्पेनशि भाषी वैध रूप से कम वेतन वाली नौकरियों (जो कि अमेरिकी नहीं करना चाहते हैं) के लिये यहाँ आते हैं। उनमें से बहुत से तो वापस अपने घर लौट जाते हैं लेकिन उनमें से कई ऐसे होते हैं जो वापस नहीं जाते।

क्यों उठाया गया ये कदम?

- वर्षों तक अमेरिकी कंपनियों और धनाढ्य अमेरिकी व्यक्तियों ने वैध तथा अवैध दोनों प्रकार के प्रवासियों को काम पर रखा।
- ट्रंप के स्वयं के रिसॉर्ट ने बड़ी संख्या में स्पेनशि भाषी प्रवासियों को न्यूनतम मज़दूरी पर रोज़गार उपलब्ध कराया है।
- दशकों से एक के बाद एक आने वाली सरकारें अवैध प्रवासन को नज़रअंदाज़ करती रहीं या उनके द्वारा इसे रोकने के लिये सीमिति कदम उठाए गए।
- राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने सफलतापूर्वक अवैध आप्रवासन के मुद्दे को उठाया और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिये मेक्सिको की सीमा पर एक दीवार बनाए जाने के वचिार को प्रचारित किया। ट्रंप ने इन अवैध प्रवासियों को “हत्यारे, चोर और जानवरों” के रूप में वर्णित किया था।

शून्य सहिष्णुता कार्यक्रम (Zero Tolerance Programme)

उसने शून्य सहिष्णुता कार्यक्रम (Zero Tolerance Programme) शुरू किया और इन अवैध प्रवासियों पर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लागू किये गए इमिग्रेशन कानूनों की बजाय आम आपराधिक कानूनों के तहत मुकदमा चलाया।

क्या है विवादित कानून?

- विवादित कानून के मुताबकि अमेरिका की सीमा में अवैध तरीके से घुसने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे प्रवासियों को उनके बच्चों से भी मलिनने नहीं दिया जाता और उन्हें अलग रखा जाता है।
- इन बच्चों की देखभाल अमेरिका का 'डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ऐंड ह्यूमन सर्विसेज' करता है। इससे पहले, बना ज़रूरी कागज़ात के पहली बार सीमा पार कर आने वाले प्रवासियों को अदालत में बुलाया जाता था।
- ट्रंप प्रशासन का कहना है कि समन भेजे जाने के बावजूद ये प्रवासी कभी अदालत में पेश नहीं होते थे, इसलिये इन पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज किये जाने का नयिम लागू करना पड़ा।
- नए कानून के अनुसार भी अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को हरिसत में लेकर जेल भेजे जाने का प्रावधान है। ट्रंप के नए आदेश से यह भी स्पष्ट है कि अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका की 'ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी' पहले की तरह ही लागू रहेगी।

(टीम दृष्टि इनपुट)

क्या कहता है आप्रवासन कानून?

- आप्रवासन कानून ऐसी स्थिति में जब अदालतों द्वारा उनके मामलों की सुनवाई की जा रही है परिवारों को एक साथ रहने की इजाजत देता है। 1997 में बच्चों के इलाज से संबंधित एक विशेष श्रेणी के मामले की सुनवाई करने वाले लॉस एंजलिंस के न्यायाधीश ने कहा था कि बच्चों को हरिसत में रखना एक अमानवीय कृत्य है।
- इस संबंध में न्यायाधीश ने एक आदेश जारी किया और कहा कि वे बच्चों को केवल तीन दिन तक हरिसत में रख सकते हैं तथा उसके बाद उन बच्चों को किसी नज़दीकी रश्तेदार को सौंप दिया जाए या सरकारी देखभाल में रखा जाए।

अवैध प्रवासियों के प्रत्यूष्टिकोण में बदलाव

- ट्रंप ने इस दृष्टिकोण में बदलाव किया और इसके बजाय परिवारों पर अपराधिक कानूनों के तहत मुकदमा चलाया।
- अपराध करने वाले व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया और उनके बच्चों को पालक माता-पिता के हवाले कर दिया गया।
- इस कार्रवाई को लेकर ट्रंप का मानना था कि यदि बच्चों को उनके माता-पिता से दूर रखा जाएगा तो इससे अवैध प्रवेश पर रोक लगेगी।

कैसे बढ़ा विवाद?

- ट्रंप के इस कार्यक्रम के खिलाफ वरिष्ठ उस समय तेज़ हो गया जब गेट्टी इमेज के फोटोग्राफर जॉन मूर ने एक छोटी लड़की के करंदन की तस्वीर उस समय खींच ली जब सीमा पर अधिकारियों ने उसकी माँ को उससे अलग कर दिया था।
- जब तक बच्चों को उनके माता-पिता से अलग नहीं कर लिया गया तब तक अधिकारी इन बच्चों के माता-पिता से यह कहकर झूठ बोलते रहे कि बच्चों को नहलाने या खलाने-पलाने के लिये ले जाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि बच्चों को अलग किये जाने के बाद माता-पिता ने दुबारा कभी अपने बच्चों को नहीं देखा।
- शीघ्र ही एक ऑडियो रिलीज़ हुआ जिसमें बच्चों को अपने माता-पिता के लिये रोते सुना गया।

पूरी दुनिया ने की अमेरिका के कानून की नदि

- पोप फ्रॉंसिस सहित दुनिया के विभिन्न देशों के नेताओं ने इस सुधार-गृह को “दुष्ट” तथा “बेरहम” की संज्ञा देते हुए इसकी नदि की।
- प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप जो स्वयं कभी अवैध तरीके से मॉडल के रूप में काम करती थी, ने अपने पति से इस नीति को वापस लेने का आग्रह किया।

ट्रंप के फैसले में बदलाव

- CNN के अनुसार, ट्रंप ने अपने अधिकारियों को बुलाकर बच्चों के करंदन करने वाली छवि पर चिंता व्यक्त की।
- उन्होंने तुरंत एक प्रवृत्तक नरिदेश जारी किया जिसमें सीमा अधिकारियों को उन परिवारों को एक साथ रखने की इजाजत दी गई।
- उन्होंने कहा कि शून्य सहिष्णुता कार्यक्रम जारी रहेगा लेकिन बच्चों को उनके माता-पिता से दूर नहीं रखा जाएगा।
- हफ्तों तक उन्होंने यह दावा किया कि वह केवल उस कानून का पालन कर रहे थे जो डेमोक्रेट द्वारा पारित किया गया था।
- उन लोगों को कैसे हरिसत में लिया जाएगा या परिवारों को कहाँ रखा जाएगा, इस पर किसी भी प्रकार के दशा-नरिदेश अभी तक जारी नहीं किये गए हैं।

नषिकर्ष

- ट्रंप के आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्हें अब कॉन्ग्रेस या लॉस एंजलिंस के न्यायाधीश को इस बात के लिये राजी करना होगा कि बच्चों को 20 दिनों के बाद भी अपने माता-पिता के साथ रहने की इजाजत दी जाए।
- इस बीच, पछिले दो महीनों में अलग किये गए 2,342 बच्चे अज्ञात हैं। उनमें से कई स्थानीय अधिकारियों की जानकारी के बिना गुप्त रूप से मियामी और न्यूयॉर्क में चले गए हैं। अधिकांश बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं और कुछ तो अपने माता-पिता का नाम भी नहीं जानते हैं।

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहे ‘आप्रवासन कानून’ के संदर्भ में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक संदर्भ में इसके प्रभाव और महत्त्व की विचिना कीजिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/a-cruel-policy-reversed-thankfully>

